

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

16 जुलाई 2019

प्रेस विज्ञप्ति

गर्मियों की छुट्टियों के बाद जामिया फिर से खुला, कुलपति ने छात्रों से कहा, खुशआमदीद

गर्मियों की छुट्टियों के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया आज फिर से खुला। इस मौके पर कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने नए और पुराने, सभी छात्रों के नाम स्वागत संदेश जारी किया।

प्रो अख्तर ने, आज से शुरू हो रहे, रोमांचक और फलदायक, नए अकादमिक सत्र के लिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि वे खुशकिस्मत हैं कि वे ऐसी यूनिवर्सिटी में तालीम ले रहे हैं, जो हाल के सालों में लगातार बुलंदियों की तरफ परवाज़ कर रही है। इसकी सबसे ताज़ा कामयाबी है, इसकी रेज़िडेन्शियल कोचिंग अकैडमी:आरसीए: का बेहतरीन प्रदर्शन। लोकसेवाओं की परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी कराने वाली इस अकैडमी के 200 छात्रों में से, 102 में से के लिए कामयाब हुए हैं। ये भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अभूतपूर्व कामयाबी है। यह सब, जामिया कैंपस के शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल और फैकल्टी मेंबर तथा छात्रों के पूर्ण समर्पण भाव का नतीजा है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे इस माहौल को बनाए रखते हुए उसे और मज़बूत करें और ऐसा कुछ नहीं करें, जो जामिया की प्रतिष्ठा को किसी भी तरह ठेस पहुंचाए।

कुलपति ने यह भी कहा कि छात्रों के और बेहतर शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के माहौल को और ज़्यादा सुखद, खुशनुमा बनाने के साथ, सुविधाओं का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि छात्रों की शिकायतों के जल्द से जल्द समाधान के लिए जामिया प्रशासन एक तंत्र बना रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के स्तर पर और डीएसडब्ल्यू के ज़रिए छात्रों की शिकायतों को फौरन हल करने की कोशिश होगी। उन्होंने आगाह किया कि जेंडर इन्जस्टिस, छेड़-छाड़ और सैक्सुअल हारैस्मन्ट के प्रति ज़ीरो टालरन्स का रवैया अपनाया जाएगा। सभी छात्रों, खासकर, छात्राओं को, कैंपस में न सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहिए बल्कि, उन्हें आज़ादी का एहसास होना चाहिए।

सभी सीनियर छात्रों से उन्होंने अपील की कि वे अपनी बातों और आचरण से, नए छात्रों की हौसलाअफ़ज़ाई करें और अच्छे आचरण के मामले में एक मिसाल बनें। जामिया के छात्र अपनी तहज़ीब और तमीज़ के लिए पहचाने जाएं और कम से कम 75 फीसदी अटेंडन्स के साथ अपनी पढ़ाई करें।

प्रो अख्तर ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी हाॅस्टल की सीमित सीटों के मद्देनज़र, उनको, मेरिट की बुनियाद पर, हक़दार छात्रों को मुहैया कराया जाए। छात्रों से उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करके, हाॅस्टल सुविधाएं देने की मांग नहीं करें। उन्होंने कहा कि हाॅस्टल की सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ, अपनी हाल की मुलाक़ात के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने जामिया के छात्रों के अनुशासन की तारीफ़ की है। यह देश के उस शीर्ष नेता की तरफ़ से बहुत बड़ा सम्मान है, जो कि खुद अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। कुलपति ने छात्रों से कहा, “ मैं चाहती हूँ कि आप अनुशासन, कड़ी मेहनत, इल्म पाने के लिए पूर्ण समर्पण को अपनाएं, जिससे कि आपका परिवार और आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कामयाबियों पर गर्व कर सकें।

छात्रों के लिए बेहतर ज़िन्दगी की दुआ करते हुए, कुलपति ने कहा कि उन्हें अपने सभी छात्रों से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने, जामिया कैंपस में छात्रों के क्रयाम के दौरान, सभी की खुशी और अच्छी सेहत की कामना की।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक